



भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेल भर्ती बोर्ड



सीईएन सं.आरआरसी-01/2019 (स्तर-1 पद)

रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षित कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस (सीसीएए) के लिए महत्वपूर्ण सूचना

1. रेल भर्ती बोर्ड की सूचना (शुद्धिपत्र और संशोधन संख्या-5) दिनांक 22.04.2022 के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि सीसीएए, जो रेलवे प्रतिष्ठान में प्रशिक्षित है, को सीबीटी के आयोजन के पश्चात अंतिम योग्यता सूची तैयार करते समय उनकी एनसीवीटी परीक्षा में प्राप्त अंकों को उचित महत्व दिया जाएगा।
2. रेलवे अभ्यर्थियों में प्रशिक्षित कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस (सीसीएए) को एनसीवीटी परीक्षा से संबंधित अंकों के अपने विवरण को संबंधित आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट में दिए गए लिंक के माध्यम से अपलोड करना होगा। यह लिंक उन सीसीएए के लिए है, जिन्होंने इस सीईएन के लिए ऑनलाइन आवेदन के पंजीकरण की अंतिम तिथि को या उससे पहले अर्थात् दिनांक 12.04.2019 को या उससे पहले (अपरेंटिसशिप पूरा करने की कट ऑफ तिथि) अपना अप्रेंटिसशिप (रेलवे प्रतिष्ठान में) पूरा कर लिया था और इसे ऑनलाइन आवेदन में आवश्यक विवरण में भर दिया था।
3. यदि अभ्यर्थी अपने एनसीवीटी अंकों को भरने में विफल रहता है, तो उन्हें अंकों का वेटेज नहीं दिया जाएगा।
4. एनसीवीटी अंक फीड करने का लिंक संबंधित आरआरबी की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है। लिंक दिनांक 31.07.2022 के 18.00 बजे तक उपलब्ध रहेगा।
5. अभ्यर्थियों को परामर्श दिया जाता है कि भर्ती प्रक्रिया पर नवीनतम अपडेट के लिए केवल आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइटों को देखें। कृपया अनधिकृत स्रोतों से गुमराह न हों।
6. उन दलालों से सावधान रहें जो अवैध रूप से विचार करके नौकरी के लिए नियुक्ति के झूठे वादों के साथ अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आरआरबी में चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) पर आधारित है और भर्ती केवल अभ्यर्थियों की योग्यता पर आधारित है।

दिनांक: 22.07.2022

अध्यक्ष
रेल भर्ती बोर्ड